



સિમા નંબર-194

Paan Gutka (Gujarati)

પાન ગટકા



શૈખે તરીકત, અમીરે અહલે સુલ્તત, બાબિયે દા'વતે ઘરલામી, હારત અલ્લામા મોવાલા અબૂ ડિવાલ
મુહમ્મદ ઇબ્રાહિમ અતાર કાદિરી ર-ઝવી

کاتبہ سیرت النبی
العساکریہ

مکتبۃ المدینہ
(دعوت اسلامی)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

કિતાબ પઢને કી દુઆ

અઝ : શૈખે તરીકત, અમીરે અહલે સુન્નત, બાનિયે દા'વતે ઈસ્લામી, હઝરત અલ્લામા મૌલાના અબૂ બિલાલ મુહમ્મદ ઈલ્યાસ અત્તાર કાદિરી ર-ઝવી دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَهُ
દીની કિતાબ યા ઈસ્લામી સબક પઢને સે પહલે ઝૈલ મેં દી હુઈ દુઆ પઢ લીજિયે اِنَّ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ જો કુછ પઢેંગે યાદ રહેગા. દુઆ યેહ હૈ :

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَأَنْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

તરજમા : ઐ અલ્લાહ ઈઝ્જા! હમ પર ઈલ્મો હિક્મત કે દરવાઝે ખોલ દે ઓર હમ પર અપની રહમત નાઝિલ ફરમા ! ઐ અ-ઝમત ઓર બુરુઈ વાલે । (المستطرف ج ١ ص ٤٠٠ دار الفكر بيروت)

નોટ : અવ્વલ આખિર એક એક બાર દુરૂદ શરીફ પઢ લીજિયે.

તાલિબે ગમે મદીના

વ બકીઅ

વ મગ્ફિરત

13 શવ્વાલુલ મુકર્રમ 1428 હિ.



પાન ગુટકા

યેહ રિસાલા (પાન ગુટકા)

શૈખે તરીકત, અમીરે અહલે સુન્નત, બાનિયે દા'વતે ઈસ્લામી હઝરત અલ્લામા મૌલાના અબૂ બિલાલ મુહમ્મદ ઈલ્યાસ અત્તાર કાદિરી ર-ઝવી ઝિયાઈ دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَهُ ને ઉર્દૂ ઝબાન મેં તહરીર ફરમાયા હૈ.

મજલિસે તરાજિમ (દા'વતે ઈસ્લામી) ને ઈસ રિસાલે કો ગુજરાતી રસ્મુલ ખત મેં તરતીબ દે કર પેશ ક્રિયા હૈ ઓર મક-ત-બતુલ મદીના સે શાએઅ કરવાયા હૈ. ઈસ મેં અગર કિસી જગહ કમી બેશી પાએં તો મજલિસે તરાજિમ કો (બ ઝરીઅએ મક્તૂબ, ઈ-મેઇલ યા SMS) મુત્તલઅ ફરમા કર સવાબ કમાઈયે.

રાબિતા : મજલિસે તરાજિમ (દા'વતે ઈસ્લામી)

મક-ત-બતુલ મદીના, સિલેક્ટેડ હાઉસ, અલિફ કી મસ્જિદ કે સામને,

ત્રીન દરવાઝા, અહમદઆબાદ-1, ગુજરાત

MO. 9374031409 • E-mail : translationmaktabhind@dawateislami.net

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



। शैतान लाभ सुस्ती दिलाओ मगर न निच्यते सवाब येउ रिसाला ।
। (28 सङ्खत) पूरा पढ कर अपनी दुन्या व आभिरत का भला कीजिये ।

दुर्द शरीफ़ की इज़ीलत

नबियों के सुल्तान, रहमते आ-लमिय्यान, सरदारे दो जहान,
महबूबे रहमान صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने नमाज़ के आ'द हम्दो सना व
दुर्द शरीफ़ पढने वाले से फ़रमाया : “दुआ मांग कबूल की जाओगी, सुवाल
कर, दिया जाओगा.” (नसائی ص २२० حديث १२८१)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

मुसल्मान की भलाई याहना कारे सवाब

उज्जते सख्खिदुना जरीर बिन अब्दुल्लाह رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ फ़रमाते
हैं : मैं ने हुज़ूर ताजदारे रिसालत صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ से नमाज़ पढने,
जकात देने और हर मुसल्मान की भैर ज्वाही करने पर भैअत की.
(उर (بُخَارِي ج ۱ ص ३० حديث ०५)

ફરમાને મુસ્તકા : صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस ने मुज पर एक बार दुइडे पाक पढा अल्लाह उस पर दस रकमतें भेजता है. (स्म)

ફર્દે ઈસ્લામ કી ખૈર ખ્વાહી (યા'ની ભલાઈ ચાહના) હર મુસલ્માન પર ફર્જ હૈ.” (ફતાવા ર-ઝવિયા, જિ. 14, સ. 415)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

મસૂદોં કે કેન્સર કે મરીઝ કી હિકાયત

અન્દાઝન ચાલીસ સાલહ આદમી ને એક બાર સગે મદીના કુફ્રુ કો બતાયા : મેરે મસૂદોં મેં કેન્સર હો ગયા હૈ, ઓપરેશન ભી કરવા ચુકા હૂં મગર સિહ્હત નહીં મિલી, દર અસ્લ મેં રોઝાના 20 યા 25 પાન ખાતા ઔર સાથ હી સાથ સિગરેટ કી એકઆધ ડિબિયા ભી પી જાતા થા. મેં ને પૂછા : અબ પાન સિગરેટ કા ઈસ્તિ'માલ ફરમાતે હેં યા નહીં ? તો વોહ દોનોં હાથ સે કાન પકડને લગે કે ઈન ચીઝોં હી ને તો મુઝે બરબાદ કિયા ઔર મૌત કે દહાને પર લા ખડા કિયા, અબ ઈન કો કેસે ઈસ્તિ'માલ કર સકતા હૂં !

આકા صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ને પરહેઝી ઈશાદ ફરમાઈ

મીઠે મીઠે ઈસ્લામી ભાઈયો ! ઈસી તરહ કે ઔર ભી મરીઝ દેખે ઔર સુને. અલ્લાહ કે ઘ્યારે હબીબ, હબીબે લબીબ, તબીબોં કે તબીબ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ બીમારોં સે હમદદાઈ ફરમાતે થે ઔર આપ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآલِهِ وَسَلَّمَ ને મુખ્તલિફ મવાકેઅ પર મુઆ-લજાત ઔર પરહેઝી કી હિદાયાત ભી ઈશાદ ફરમાઈ હેં, ચુનાન્ચે હઝરતે સય્યિ-દતુના ઉમ્મે મુન્જિર عَنْهَا صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ફરમાતી હેં : (એક દિન) નબિયે કરીમ, રઊફુરુહીમ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيمِ મેરે યહાં તશરીફ લાએ, હઝરતે

करमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: जिस क पास मेरा जिक्र हुआ और उस ने मुझ पर दुर्दे पाक न पढ़ा तउक़ीक़ वोह बढ भप्त हो गया. (उंन)

तेरी वइशतों से अै हिल ! मुझे क्यूं न आर आअे
तू उन्हीं से दूर भागे जिन्हें तुज पे प्यार आअे

(जौके ना'त)

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدًا

या रब्बे मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ! तेरे प्यारे उलीअ हलीअ का नाम के इस करमाने आलीशान : اَللّٰهُنَّ النَّصِيْحَةُ : या'नी दीन जैर ज्वाही का नाम है. (मुसल्लम ७/५७ हदीथ ००) का वासिता मुजे उम्मतो मडबूअ की जैर ज्वाही का दद नसीअ करमा, जैर ज्वाही में अगलात से मडकूज कर और शरीअत के मुताबिक दिये जाने वाले मेरे जैर ज्वाहाना मश्वरे हाथों हाथ लेने और इन पर अमल करने की मुसल्मानों को सआदत इनायत करमा और मुजे भी अ-मले जैर की तौफ़ीक अज्श.

तू तउरीर में द द तासीर या रब ! कलम में असर हो अता या र्वाही

اٰمِيْنَ بِجَاةِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

पान क्या है ?

पान अक मज्सूस बेल का पत्ता है. जिसमें इनसानी पर पान की तासीर "गर्म ज्शक" है, इस में विटामिन बी कोम्पलेक्स (Vitamin B complex) होता है.

“या गौसे आ'जम नजरे करम” के पन्दरउ लुइइ की निस्बत से पान के 15 इवाँद

﴿1﴾ पान का पत्ता जाया जअे तो अदन में जून बनाने में मदद करता है ﴿2﴾ हिल को इरहत ﴿3﴾ जिगर ﴿4﴾ मे'दा और ﴿5﴾ हिमाग को कुव्वत अज्शता ﴿6﴾ मुंड की ज्शकी दूर करता और ﴿7﴾ गला

﴿8﴾ **फरमाने मुस्तफ़ा** صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : जिस ने मुँह पर दस भरतभा सुब्ब और दस भरतभा शाम दुइद पाक पढा।
 (उसे क्रियामत के दिन मेरी शफ़ाअत मिलेगी. (मुरव्वज))

साफ़ करता है ﴿8﴾ पान का कोरा पत्ता यजाने से दांतों का दद दूर और ﴿9﴾ मुँह की बदबू काफ़ूर (दूर) डोती है ﴿10﴾ येड ढांसी ﴿11﴾ लुकाम और ﴿12﴾ थकन दूर करता है ﴿13﴾ ढाना डज़्म करने में मददगार है अलबत्ता नडार मुँह ढाने से लूक कम करता है ﴿14﴾ पान में क्लोरोफ़िल (Chlorophyll) डोता है और ँसी वजड से ँस का रंग सल्ल डोता है और येड सिर्फ़ पत्तों डी में पाया जाता है. क्लोरोफ़िल बदने ँन्सानी के लिये कुव्वत बल्ल है ﴿15﴾ पुराने जमाने में मुँह का ज़ाअेका ठीक करने के लिये पान ँस्ति'माल क्रिया जाता था, अब ली पान का सिर्फ़ कोरा पत्ता ढा कर ँस के इवाँद डसिल क्रिये जा सकते हैं. मुरव्वज पान के अडम अजज़ा कथ्या, यूना और छालिया हैं. लिडज़ा ँन के बारे में ली मुप्तसरन मा'लूमात डज़िर हैं :

कथ्या क्या है ?

कथ्या अेक मल्लसूस दरपत की लकडियों का उसारा (या'नी नियोड) है. अस्ली कथ्ये की ँन्सानी जिस्म पर तासीर “सद भुशक” है.

कथ्ये के 8 इवाँद

﴿1﴾ कथ्या ढून साफ़ करता है ﴿2﴾ दस्त बन्द करता और कल्ल करता है ﴿3﴾ ढून और ﴿4﴾ जिगर के गैर ज़ररी माददे के ँल्लराज (या'नी निकालने) में मदद करता है ﴿5﴾ बलगम और ﴿6﴾ ढून के इसाद को दूर करता ﴿7﴾ पेशाब की जलन को मिटाता है ﴿8﴾ ँस के गरारे मुँह के छालों के लिये मुफ़ीद हैं.

करमाने मुस्तकी علی اللہ تعالیٰ عنہ و عبد ربہ وسلم : जिस के पास मेरा ठिक हुवा और उस ने मुज पर दुरद शरीक न पढा उस ने जका की. (مہاجرین)

सूपी पांसी का ँलाज

अस्ली कथ्या, लुदी और मिसरी तीनों लम-वज़न पीस कर रभ लीजिये और सुभु व शाम अक अक ग्राम ँस्ति'माल कीजिये.

پوشک پاڻسی کے لیے موفیہ پائیں گے.

मुईद मञन

अस्ली कथ्या और छालिया लम-वज़न पीस कर दांतों पर मलने से छिलते दांत मजभूत होते और मसूढ़ों की सूजन भी बि ँज्जिनदलाड लुईद ठीक हो जाती है.

नकली कथ्ये की तबाड कारियां

मेरी मा'लूमात के मुताबिक पाकिस्तान में कथ्ये की पैदावार नहीं होती, लिहाजा दौलत के हरीस अकराद जिन्हें किसी की दुन्या और अपनी आभिरत बरबाद होने की कोछ किक नहीं होती वोड मिट्टी में यमडा रंगने का रंग मिला कर उसी मिट्टी को कथ्या कड कर बेयते हैं ! और यूं बेयारे पाकिस्तानी पान पोर गन्दी मिट्टी पा कर तरड तरड के अमराज का शिकार और सप्त बीमार हो कर तबाडी के गार में जा पडते हैं. जाना डी हो तो अस्ली कथ्या सिई मुनासिब मिक्दार में पाअें, जान बूज कर नकली कथ्या हरगिज ँस्ति'माल न इरमाअें. नकली कथ्ये के ताजिर और नकली कथ्ये वाला पान गुटका धोके से बेयने वाले ँस के'ल से सख्यी तौबा करें, नीज जान बूज कर मिट्टी जाने वाले भी बाज आअें. मिट्टी के बारे में शर-ँ मस्अला येड है के ँसे उदे जरर तक (या'नी नुकसान देड मिक्दार में) जाना हराम है. युनान्ये पातिमुल

ફરમાને મુસ્તફા ﷺ : عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ : મુઝ પર દુરૂદે પાક કી કસરત કરો બેશક યેહ તુમ્હારે લિયે તહારત હૈ. (બુયૂતી)

બચ્ચે દેર સે ચલના સીખતે હૈં, જિન કે દાંત દેર સે નિકલતે હૈં ઉન કા સબબ ચૂને (યા'ની કેલ્શિયમ) કી કમી હોતી હૈ. (હર તરહ કા ઈલાજ તબીબ કે મશ્વરે હી સે કરના ચાહિયે)

ચૂના ખાને કા શર-ઈ હુકમ

મેરે આકા આ'લા હઝરત, ઈમામે અહલે સુન્નત, વલિય્ચે ને'મત, અઝીમુલ બ-ર-કત, અઝીમુલ મર્તબત, પરવાનએ શમ્એ રિસાલત, મુજદિદે દીનો મિલ્લત, હામિયે સુન્નત, માહિયે બિદ્અત, આલિમે શરીઅત, પીરે તરીકત, બાઈસે ખૈરો બ-ર-કત, હઝરતે અલ્લામા મૌલાના અલહાજ અલ હાફિઝ અલ કારી શાહ ઈમામ અહમદ રઝા ખાન عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن ફરમાતે હૈં : પાન ખાના જાઈઝ હૈ ઔર ઉતના ચૂના (ખાના) ભી (જાઈઝ જો) કે ઝરર (યા'ની નુકસાન) ન કરે. (ફતાવા ર-ઝવિયા, જિ. 24, સ. 558)

ચૂને કે નુકસાનાત

મીઠે મીઠે ઈસ્લામી ભાઈયો ! મા'લૂમ હુવા નુકસાન દેહ હદ તક ચૂના ખાના જાઈઝ નહીં ક્યૂંકે ઝિયાદા ચૂના ખાને સે મુંહ મેં છાલે પડતે હૈં ઔર ઈસ સે પેશાબ કા અમલ ભી મુ-તઅસ્સિર હોતા હૈ. પાન સુપારી કી કસરત કે સબબ જિન કે મુંહ કી ખાલ તક્લીફ દેહ હદ તક સુકડતી ઔર મુંહ મેં છાલે પડતે હૈં ઉન કે લિયે પાન છાલિયા ઔર ચૂને વગૈરા કા ઈસ્તિ'માલ શરઅન મમ્નૂઅ હૈ.

છાલિયા

છાલિયા (સુપારી) એક દરખ્ત કા ફલ હૈ, બદને ઈન્સાની પર ઈસ કી તાસીર “સર્દ ખુશ્ક” હૈ, છાલિયા કબ્જ કરતી હૈ. વરમ (સૂજન)

करमाने मुस्तफ़ی : عَلَى اللَّهِ تَعَالَى غَلِيظٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : तुम जहां भी हो मुझ पर दुरइद पढो के तुम्हारा दुरइद मुझ तक पड़ोयता है. (प्रान्)

को दूर करती और औरतों के सैलानुरिइम (लीकोरिया) के लिये मुझीद है।
छालिया का ज़ियादा इस्ति'माल नुकसान देह है।

छालिया का मन्जन

छालिया को जला कर कोअेला बना लीजिये और उस से तीन गुना “चोक” (Chalk) उस में मिला कर पीस कर बोतल में रख लीजिये और रोजाना बतौरे मन्जन इस्ति'माल कीजिये. $\text{إِنَّ كَيْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ}$ दांत साफ़, यमकदार और मसूढे मजबूत होंगे।

जबान का केन्सर

जबान पर कुदरती तौर पर मप्सूस ज़रत होते हैं जिन में कुव्वते ज़ाअेका होती है, इन्हीं ज़रत के जरीअे जबान की नोक से मिठास का और जबान के बीच के डिस्से से कडवाहट और नमक वगैरा का ज़ाअेका मा'लूम होता है. पान, छालिया, गुटका, जुशबूदार सुपारी, मेनपूड़ी और तम्बाकू वगैरा का ब कसरत इस्ति'माल जबान के उन कुदरती ज़रत का फ़ातिमा कर देता है जिस के सबब फ़ाने पीने का ज़ाअेका और ठन्डे गर्म का पता नहीं चलता. पान, छालिया, गुटका और तम्बाकू वगैरा के ज़ियादा इस्ति'माल से जबान के अगले दो तिहाई (2/3) डिस्से में केन्सर हो सकता है जो के मज़ीद इकल कर गिज़ाई नाली को बन्द कर सकता है. इस केन्सर का डॉक्टरी इलाज येही है के जबान काट दी जाअे. इस के फ़ा'द न आदमी फ़ाना फ़ा सकता है न ही फ़ात कर सकता है.

इस्माने मुस्तका : عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : जिस ने मुझ पर दस मरतबा दुरुदे पाक पढा अल्लाह उंस पर सो रलमतें नाजिल इरमाता है. (प्राण)

मसूढों का केन्सर

अ कसरत पान गुटका वगैरा पाने वाले के मसूढे उभूमन झूले रहते हैं और उन से अकसर भून रिस रिस कर पेट में जाता और तरह तरह की बीमारियां लाता है. अगर पान गुटके की अब भी मुसल्लस आदत जारी रहती है तो फिर आम तौर पर नीचे के झूले हुआ मसूढों का केन्सर हो जाता है.

दांतों का कब्ज अज वक्त गिरना

कब्ज अज वक्त दांत गिरने की कई वुजूहात हैं. अक तहकीकी आ'दाद व शुमार में वक्त से पडले ही जिन लोगों के दांत गिर गये थे उन में से 50 ईसद अफ़राद पान छालिया के आदी थे. पान छालिया की वजह से जिस का कोई दांत गिर जाये और वोड फिर भी अपनी आदत से बाज न आये तो ँस बात का 90 ईसद भतरा है के उस के मसूढों में क्केन्सर हो जाये !

पान गुटका और छोटों का केन्सर

छोटों का केन्सर उभूमन 30 ता 70 बरस की उम्र में होता था मगर अब पान छालिया और गुटका वगैरा का इस्ति'माल बढ़ जाने के सबब 10 ता 20 साल की उम्र में भी छोटों का केन्सर होने लगा है.

पान गुटका और मुंह के गोश्त का केन्सर

मुंह के गोश्त या'नी गाल का केन्सर उन लोगों को होता है जो पान या गुटका मुंह की अक तरफ़ रहने के आदी होते हैं. गाल का केन्सर मर्दों की निस्बत औरतों में ज़ियादा होता है.

करमाने मुस्तफ़ा على الله تعالى عليه وسلم : जिस के पास मेरा ठिक़ हो और वोह मुज़ पर दुइए शरीफ़ न पढे तो वोह लोगों में से कन्ज़ूस तरीन शम्स है. (ज़िब्रिया)

पान गुटका और मुंड का केन्सर

अगर अस्ली कथ्था लगा कर अख़्शी किस्म की छालिया की तीन यार टुकड़ियों के साथ कल्मी कल्मार पान आ लिया ज़ांमे तो हरज नहीं, मगर मश्वरतन अर्ज़ है के कल्मी कल्मार आने से ल्मी बयिये, कहीं यस्क़ा लग गया तो मुश्किल भड़ी हो सकती है, क्यूंके ब कसरत पान, गुटका और पान पराग वगैरा आना बाईसे तश्वीश है.

हिक़ायत : अेक ईस्लामी भाई जिन्हों ने पान आ आ कर होंट लाल किये हुअे थे उन से मैं ने (या'नी सगे मदीना عَنْ مُحَمَّدٍ ने) मुंड भोलने को कहा तो ब मुश्किल थोडा सा भोल पाअे, ज़भान बाहर निकालने की दर-ज्वास्त की तो वोह ल्मी सहीह तरह से न निकाल सके. पूछा : मुंड में छाला हो गया है ? बोले : हां. मैं ने उन को पान बन्द कर देने का मश्वरा अर्ज़ किया. बा'द में पूछने पर मा'लूम हुवा के لِللَّهِ عَزَّوَجَلَّ मेरी दर-ज्वास्त पर उन्हों ने जब पान की आदत निकाल दी तो उन के मुंड का छाला ठीक हो गया. हर पान या गुटका आने वाला अपने मुंड का ज़रूर इम्तिहान करे, क्यूंके ईस का ज़ियादा इस्ति'माल मुंड के नर्म गोश्त को सप्त कर देता है जिस के सबब मुंड पूरा भोलना और ज़भान को होंटों के बाहर निकालना दुश्वार हो जाता है. नीज़ यूने का मुसल्सल इस्ति'माल मुंड की जिल्द को फ़ाड कर छाला बना देता है और येही मुंड का अल्सर है. मुंड के अल्सर के मरीज़ों की ता'दाद में तेज़ी से इज़ाफ़ा होता जा रहा है. पान गुटका, भुशबूदार सोंफ़ सुपारी, छालिया, मेनपूड़ी, पान पराग,

करमाने मुस्तकी عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : उस शप्स की नाक पाक आलूद हो जिस के पास मेरा जिंक हो और वोह मुअ पर दुइरे पाक न पढे. (१८)

तम्बाकू वगैरा के सबभ अब 100 में से 40 अइराद को मुंड का अल्सर होने लगा है. शुइअ शुइअ में जब मुंड में छाले पडते हैं तो हइते हो हइते में ठीक हो जाते हैं अगर ऐहतियात न की जाये तो दोबारा पडते हैं और तकलीफ की शिदत में एंजाफा होता है. जैसे शप्स को छालिया, गुटका, मेनपूडी और पान पराग वगैरा से कौरन जान छुडा लेनी याछिये वरना येही छाले आगे चल कर مَمَّا لِلَّهِ كَرَّمَ के-सर की शकल एंप्तियार कर सकते हैं.

मुंड के के-सर की अलाभात

पान, छालिया, गुटका, भुशबूदर सोंफ सुपारी और रंग बिरंगी मीठी गोदियां¹, गीला गुटका, भुशक गुटका, पान पराग, नस्वार, भुशक नस्वार, हुक्का तम्बाकू, युरट (या'नी सिगार. बडा सिगरेट जो तम्बाकू का पत्ता लपेट कर बनाया जाता है), मीठी छालिया वगैरा सब भतरनाक चीजें हैं, एन की आदत तर्क कर देने ही में आइइयत है. वरना भुदा ना ज्वास्ता मुंड का के-सर हो गया तो सर पटभ पटभ कर रोने से ली

¹ : अेक टॉइयों के थोक के वेपारी के बकौल बे जरर नजर आने वाली रंग बिरंगी मीठी मीठी गोदियों पर कपडे रंगने का रंग बढाया जाता है क्यूंके जाने का रंग (Food colour) एंस पर बढता ही नहीं, नीज बाबुल मदीना के अेक रंग के वेपारी ने मुजे बताया के जाने का गुलाबी रंग बहुत मडंगा होता है, लिहाजा जाने पीने की तमाम लाल या गुलाबी अश्या में हमारे यहां आम तौर पर कपडे रंगने का रंग ही एंस्ति'माव होता है जो के के-सर का बाईस बन सकता है. उस उम्मत के जैर ज्वाल वेपारी ने मजीद कडा के مَمَّا لِلَّهِ كَرَّمَ में जाने पीने की अश्या बनाने वालों के हाथ गुलाबी रंग नहीं बेयता आते हैं तो मन्अ कर देता हूं. सगे मदीना عَلَى

करमान मुस्तका عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : जिस ने मुज पर रोजे जुमुआ दौ सो बार दुरेद पाक पढा उस के दौ सो साल के गुनाह मुआफ़ होंगे. (क़ुरआन)

मस्अला हल नहीं होगा. मुंछ के हर तरह के केन्सर की अलामात नोट करमा लीजिये : पहले पहल जभान बाहर निकलना बन्द होती है, मुंछ से बढबू आती है, मसूढों से पून रिसता है, बोलने और पाने पीने में तकलीफ़ होती है और वक्त से पहले दांत गिरना शुरू हो जाते हैं. याद रखिये ! हर तरह का केन्सर फैलता है. मुंछ का केन्सर फैल कर गले की तरफ़ बढता है और बिल आभिर गिजा और सांस की नाली बन्द हो जाती है और फिर मरीज मौत के घाट उतर जाता है.

पान गुटका और पेट का केन्सर

येह भी गौर करमाँये के जो यूना मुंछ के गोश्त को खास सकता है वोह पेट के अन्दर जा कर न जाने क्या क्या तबाहियां मयाता होगा. यूना आंतों और मे'द्रे में भी बा'ज अवकात यरका (या'नी जराश, हलका सा जम्म) लगा देता है ँसी को अक्सर कहते हैं. झौरी तौर पर ँस का पता नहीं चलता. जब येह बढ जाता है तब कहीं मा'लूम होता है. येही अक्सर आगे बढ कर पेट के केन्सर का भयानक रूप धार सकता है.

केन्सर के 9 मरीज

अेक डॉक्टर का कहना है के मैं ने सिविल (Civil) अस्पताल बाबुल मदीना करायी के E.N.T वॉर्ड का दौरा किया तो वहां मुंछ के केन्सर के 9 मरीज अपने ऑपरेशन की तारीख का ँन्तिजार कर रहे थे. येह अेक हफ़्ते के मरीज थे जो के तकरीबन सभी पान तम्बाकू, छालिया, गुटका, सिगरेट, मेनपूडी, पान पराग वगैरा के शाँकीन थे. उन की

करमाने मुस्तक। على الله تعالى غلبوا اليه وسلم : मुठ पर दुइए शरीक पढो अल्लाह عزوجل तुम पर रहमत भेजिगा।

(अरबिया)

तइसील येह है : «1» नादिर पान, उम्र 17 बरस, गले का केन्सर
 «2» मुहम्मद अली, उम्र 16 साल, सांस की नाली का केन्सर «3» अस्गर,
 उम्र 19 साल, मुंड का केन्सर «4» राशिद, उम्र 33 साल, मुंड का केन्सर
 «5» नूर मुहम्मद, उम्र 30 साल, मुंड का केन्सर «6» कामरान, उम्र 25
 साल, गले का केन्सर «7» हाज्ज मुहम्मद, उम्र 52 साल, गिजा की नाली
 का केन्सर «8» तुराब अली, उम्र 72 साल, गले का केन्सर «9» करीम
 बप्शा, उम्र 65 साल, मुंड का केन्सर. येह अेक वॉर्ड के सिर्फ अेक हईते के
 मरीज थे. सिविल अस्पताल बाबुल मदीना में E.N.T के दो वॉर्ड हैं,
 इस तरह गाविबन हईते त्मर के दुगने मरीज हुअे. अब इसी हिसाब
 से माडाना और सालाना पान जोर केन्सर के मरीजों का हिसाब लगा
 लीजिये. येह सिर्फ बाबुल मदीना के अेक अस्पताल की बात है. अैसे
 बलके इस से बडे बडे दुन्या में न जाने कितने अस्पताल हैं. इस तरह
 मुंड के केन्सर के मरीजों की हईतावार ता'दाह हजारों तक पछोंच
 सकती है !

मेनपूजी और गुटका पान पाना छोड दो बाईयो सिगरेट का धूआं उडाना छोड दो
 केन्सर गर हो गया घबराओगे पछताओगे सर पटभ कर रोओगे, पर कुछ न तुम कर पाओगे

पान या गुटका और गले का केन्सर

पान या गुटका ब कसरत पाने वाले की पहले पहल आवाज
 में भराबी पैदा होती है और गला भीमार हो जाता है, अगर वोह
 इस तकलीफ को तम्भीह (NOTICE) तसव्वुर कर के पान या गुटका
 पाने से बाज नही आता तो बढते बढते مَعَاذَ اللَّهِ كَرُجْ गले के केन्सर

करमान मुस्तफ़ی علی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم : मुज़ पर कसरत से दुरुद पाक पढो बशक तुम्हारा मुज़ पर दुरुद पाक पढना तुम्हारे गुनाहों के लिये मङ्क़िरत है. (मुश्फ़)

(Throat cancer) तक नौबत पड़ोय जाती है. कहा जाता है : गले के केन्सर के मरीजों में से 60 ता 70 फ़ीसद ता'दाद पान या गुटका पाने वालों की होती है.

पान, गुटका और गुर्दे की पथरी व केन्सर

आज कल गुर्दे की पथरी की बीमारी आम है. इस का अेक बहुत बडा सबब छालिया और यूना भी है. गुर्दे से निकली हुई पथरी की जब तश्चीश (EXAMINE) की जाती है तो अकसर उस में डेव्शियम (या'नी यूने) की मिकदार ज़ियादा होती है. हत्ता के बसा अवकात पथरी में छालिया के अज्जा भी मौजूद होते हैं. जो लोग मजे ले ले कर गुटका और तरह तरह की पुशबूदार सुपारी खाते हैं उन की खिदमत में अर्ज़ है : अेक डोकटर के बयान के मुताबिक गुर्दे में 80 फ़ीसद पथरी छालिया के सबब होती है. **فُجِدَّ اللهُ دَعْوًا** गुर्दा नाकारा (Fail) हो जाना या इस में केन्सर (Kidney cancer) हो जाना भी पान गुटके के कसरते इस्ति'माल के नुकसानात में से है.

भूराक नाक से बाहर आ जाती है

दा'वते इस्लामी के आलमी म-दनी मर्कज़ इँजाने मदीना बाबुल मदीना करायी के अन्हर २-मजानुल मुबारक 1426 सि.हि. में आखिरी अ-शरे के इजतिमाई अे'तिकाफ़ में 3000 से जाईद इस्लामी त्वाई मो'तकिफ़ थे. दौराने अे'तिकाफ़ नमाजे जोहर के बा'द "म-दनी मुजा-करे" में अेक दिन सिगरेट और पान गुटके की तबाह कारियां बयान की गई और कई आदी इस्लामी त्वाईयों ने उठ उठ कर

करमाने मुस्तफ़ی صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जो मुझे पर एक दुश्मन शरीक पढ़ता है अद्वालह عَزَّوَجَلَّ उस के लिये एक कीरात अज्र लिखता है और कीरात उलूह पढाउ जितना है. (मुराज़िज़)

पान गुटका और सिगरेट का 'इस्ति'माल तर्क करने का अड्ड किया, 'इसी दौरान किसी ने एक परची दी जिस में दा'वते 'इस्लामी के किसी जिम्मेदार ने लिखा था : टन्डो आदम (बाबुल 'इस्लाम सिन्ध, पाकिस्तान) में एक बार दा'वते 'इस्लामी के एक "म-दनी मश्वरे" के बा'द एक 'इस्लामी भाई ने बताया के मेरा भाई छालिया बहुत भाता था उस को गले का केन्सर हो गया है जो थोड़ा मुंह से जाता है वोह नाक से निकल जाती है !

गुटका और की छिकायत

एक 'इस्लामी भाई ने बताया के अजीजआबाद (बाबुल मदीना कराची, पाकिस्तान) के 28 सालह 'इस्लामी भाई से मुलाकात हुई. उन्होंने ने नाक के नीचे से अपना मुंह छुपाया हुआ था, वजह पूछने पर कपडा हटा दिया. बढबू का एक जोरदार लम्का उठा, आह ! बेचारे के येउरे के नियले छिस्से का गोशत केन्सर की वजह से सड कर उड चुका था और दांत नजर आ रहे थे. ब मुश्किल तमाम उन्होंने ने बताया के मैं गुटका खाने का आदी था यहां तक के गुटका मुंह में रख कर सो भी जाता था. कुछ ही दिनों के बा'द या'नी 15 शा'बानुल मुअज़्जम 1425 सि.हि. को उन का 'इन्तिकाल हो गया. अद्वालह عَزَّوَجَلَّ हमारी, मर्हूम 'इस्लामी भाई की और उम्मतो महबूब صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ की मजिरेत इरमाअे.

أَمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

एक डॉक्टर के तअस्सुरात

एक डॉक्टर का बयान है, मैं ने सिविल अस्पताल (बाबुल मदीना

ફરમાને મુસ્તફા ﷺ : जिस نے کیتاہ میں موز پر دھڑدے پاک لیا تو جہنم تک میرا نام اُس میں
 رہےگا۔ کیریشته اُس کے لیے اِستغفار کرتے رہےگے. (طبرانی)

કરાચી, પાકિસ્તાન) કી ચાર સાલહ સર્વિસ મેં મુંહ કે કેન્સર મેં અક્સર નૌ જવાનોં હી કો મુખ્તલા દેખા હૈ. ઈસ કી વજહ સિગરેટ, પાન, છાલિયા, તમ્બાકૂ ઓર મેનપૂડી કા બે તહાશા ઈસ્તિ'માલ હૈ. યેહ ચીઝેં ન જાને કિતનોં કો કેન્સર કે મરઝ મેં પટખ દેતી હેં. બા'ઝ લોગોં કા યેહ કહના મુનાસિબ નહીં કે “કુલાં એક અર્સે સે પાન ખા રહા હૈ ઉસ કો તો કુછ નહીં હોતા !” હમ અલ્લાહ ﷻ સે આફિયત કા સુવાલ કરતે હેં, આજ નહીં ભી હુવા તો કલ “કુછ” હો સકતા હૈ. નફ્સાની ખ્વાહિશ ઓર ચન્દ મિનટ કે લુત્ફ કી ખાતિર અપની કીમતી જાન કો ખતરે મેં ડાલના દાનિશ મન્દી નહીં, બહર હાલ ઈન ચીઝોં કે કસ્રતે ઈસ્તિ'માલ મેં જાની વ માલી હર તરહ સે નુક્સાન હૈ. એક છોટા સા પાન બાબુલ મદીના કરાચી મેં (તા દમે તહરીર યા'ની 30 રબીઉલ ગૌસ 1426 સિ.હિ.) 2 રુપૈ 50 પૈસે કા મિલતા હૈ અગર રોઝાના કોઈ 10 પાન ખાએ તો યૌમિયા 25 રુપૈ હુએ ઓર ઈસ તરહ વોહ મ-દની બરસ કે હિસાબ સે સાલાના 9125 રુપૈ કે પાન ખા કર થૂ થૂ કરતા, પિચકારિયાં મારતા ઓર બજાએ ફાએદે કે ઈતની ભારી રકમ મેં તરહ તરહ કે અમરાઝ ખરીદ રહા હૈ. નીઝ અગર કોઈ બીમારી લગ ગઈ તો ઈલાજ પર હઝારહા રુપૈ કા ખર્ચ મઝીદ બરઆં ઓર પિચકારી માર કર કિસી કી દીવાર કો રંગીન કર દિયા તો ઉસ કી દિલ આઝારી વ હક ત-લફી કે ગુનાહે કબીરા કા ઈમ્કાન જુદા.

કીચડ આલૂદ દીવાર કી હિકાયત

જો લોગ દૂસરોં કી દીવારોં પર પાન કી પીક થૂકતે, બિગૈર ઈજાઝતે માલિકે મકાન ચોંકિંગ કરતે, પોસ્ટર લગાતે ઓર જાન બૂઝ કર કિસી

करमाने मुस्तफ़ा : صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ जिस ने मुझ पर एक बार दुरुदे पाक पढा अल्लाह उस पर दस रज्जतों भेजता है. (स्ल)

तरह से उस के रंग व यूने वगैरा को नुकसान पड़ोयने का भाईस हो कर सप्त गुनहगार और जहन्नम के लकदार बनते हैं उन की तवज्जोह के लिये अेक ईमान अफ़रोज़ हिकायत पेश की जाती है, युनान्ये करोड़ों ह-नफ़िय्यों के अजीम पेशवा हजरते सय्यिदुना ईमामे आ'उम अफ़्मै रَحْمَةُ اللهِ الْأَكْرَمِ عَلَيْهِ अपने अेक मक़्दुम मजूसी से कर्ज़ की वुसूली के लिये तशरीफ़ ले गये, घर के करीब ईत्तिफ़ाक से आप رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ की ना'ले शरीफ़ कीयउ में सन गई उस को साफ़ करने के लिये आप رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ने जाडा तो कुछ गन्दगी उउ कर मजूसी की दीवार से लग गई. आप رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ईस उल्लान में पउ गये के अगर साफ़ नहीं करूंगा तो दीवार गन्दी रहेगी, गन्दगी पुरयूंगा तो मिट्टी वगैरा जड़ेगी और यू दीवार को नुकसान पड़ोयेगा. ईसी शशोपन्ज में आप رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ने मकान का दरवाजा षट-षटाया, जब मजूसी ने बाहर निकल कर ईमामे आ'उम अफ़्मै रَحْمَةُ اللهِ الْأَكْرَمِ عَلَيْهِ को देखा तो सट-पटा गया के हो न हो आप अपना कर्ज़ तलब इरमायेगे. लिहाजा मा'जिरत याहने लगा. आप रَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ने दीवार का किस्सा बता कर तश्वीश का ईजहार करते हुअे इरमाया के अब आप ही तदबीर बताईये ताके येह दीवार साफ़ हो जाअे. उस मजूसी ने जब ईमामे आ'उम अफ़्मै रَحْمَةُ اللهِ الْأَكْرَمِ عَلَيْهِ का येह तकवा और हुस्ने अफ़्लाक देखा तो बोल उठा : दीवार की गन्दगी रहने दीजिये पहले मुझे दाबिले ईस्लाम कर के मेरे हिल की गन्दगी साफ़ कर दीजिये. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ वोह मजूसी मुशर्रफ़ ब ईस्लाम हो गया.

(तफ़्सीर कबीर ज १ व २०६)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

ईरमाने मुस्तफ़ा عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जो शप्स मुज़ पर दुइडे पाक पढना भूल गया वोड जन्तत का रास्ता भूल गया. (ज़रूरी)

भीठे भीठे ईस्लामी भाईयो ! देखा आप ने ! करोड़ों मुसल्मानों के यहीते ईमाम या'नी उमारे ईमामे आ'उम عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ किस कदर भौंके फुदा عَزَّوَجَلَّ के डामिल थे. यकीनन तकवा और परहेज़ गारी का अपना अेक असर डोता है, ईमामे आ'उम عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ की म-दनी सोच देष कर مُحَمَّدٌ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ आतश परस्त शप्स मुसल्मान डो गया.

सिन्ध में गुटके की तबाड कारियां

भीठे भीठे ईस्लामी भाईयो ! बाबुल ईस्लाम (सिन्ध, पाकिस्तान) बिल फुसूस डैदरआबाद में नाकिस मेनपूडी और सडी डुई छालिया के गुटके ने तबाडी मया रषी है. ईन्टरनेट की वेबसाईट “जंग ओन लाईन” 13 स-ईरुल मुज़ईर 1426 सि.डि. (अ मुताबिक 23-3-2005) की अेक तवील षबर को मुफ्तसर कर के पेश करता डूं पढिये और लरजिये नीउ बाजारी पान, छालिया, गुटका और मेनपूडी के ईस्ति'माल की फुद पर और डो सके तो अपने बाल बच्चों पर भी सप्त पाबन्दी डालिये :

“डैदरआबाद और ईस के कुर्बी जवार में मुजिरे सिड्डत मेनपूडी और गुटके के ईस्ति'माल के बाईस 20 अईराद को ईन्तिडार्ड नाउक डालत में मुफ्तविड अस्पतालों में डामिल किया गया है जब के तकरीबन 500 अईराद ड्लड केन्सर और गले की बीमारियों में मुफ्तला डो गअे हैं. वाजेड डो के “सिन्ध डार्डकोर्ट सर्किट बेन्च डैदरआबाद” की जनिब से मेनपूडी और गुटके की तय्यारी और इरोफ्त पर पाबन्दी है. डेकिन डैदरआबाद सिटी, लतीफ़आबाद, कासिमआबाद और अन्डरूने सिन्ध मुजिरे सिड्डत मेनपूडी और गुटके की तय्यारी और फुले आम इरोफ्त जारी है. बा'उ नुमूने टेस्ट के लिये “पाकिस्तान काउन्सिल ओफ़ साईन्टिफ़िक अेन्ड ईन्डस्ट्रीयल रीसर्च डेबोरेटरीज” को रवाना किये गअे थे जिस ने

﴿فَرْمَانِهٖ مُسْتَفْهِمًا﴾ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस के पास मेरा जिक्र हुआ और उस ने मुझ पर दुर्दुष्ट पाक न पड़ा तबकीक वोह बढ भन्त हो गया. (उर्जा)

9-9-2004 को अपनी रिपोर्ट में गुटके और मेनपूड़ी के नुमूनो को मुजिरे सिद्धत करार दिया था. हैदरआबाद की “शहरी ब्याव अेकशन कमेटी सिन्ध” ने अेक सर्वे रिपोर्ट जारी की है जिस में बताया गया है के मेनपूड़ी की तय्यारी में 70 ईसद भजूर की गुठलियां और 30 ईसद गैर मे’यारी छालिया इस्ति’माल की जा रही हैं. मेनपूड़ी और गुटके में गली सडी छालिया, मुलतानी मिट्टी, गैर मे’यारी तम्बाकू, यूना और रंग (Paint) में इस्ति’माल होने वाले पछाडी पथ्थर का सुङ्क (पावडर) इस्ति’माल किया जा रहा है जिस के बाईस लोगो में केन्सर और टीगर मोहलिक अमराज तेजी से फैल रहे हैं.” हैदरआबाद (आबुल इस्लाम पाकिस्तान) के “मेनपूड़ी” जाने वालों के लरजा भेज वाकिआत मुला-छजा हों. युनान्थे

मेनपूड़ी के पांय शिकार

हैदरआबाद (आबुल इस्लाम पाकिस्तान) के अेक इस्लामी भाई के बयान का जुलासा है : गालिबन 1421 डि. की बात है, मैं हैदरआबाद से आबुल मदीना (कराची) जाने के लिये कभो बेश दो पहर 2 बजे बस में सुवार हुआ, बराबर की निशस्त पर बैठे हुअे अेक इस्लामी भाई से बातचीत शुरूअ हुआ. दौराने गुङ्त-गू उन्हों ने जो कुछ बताया वोह अपनी याद दाशत के मुताबिक अर्ज करता हूं : “मैं मेनपूड़ी जाने का इन्तिहाई शौकीन था, मगर अब मैं ने इस से जान छुडा ली है इस की वजह येह है के मेरे तकरीबन तमाम दोस्त मेनपूड़ी जाने के आही थे. उन में से 5 केन्सर का शिकार हो गअे. जिन में से तीन अब तक झौत हो चुके हैं और जो 2 जिन्दा हैं उन्हें डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है. आप दुआ फरमाअे अल्लाह جَعَزَّوَجَلَّ उन्हें शिक्रा अता फरमाअे.”

કરમાને મુસ્તફા صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم : جيس نے मुज पर अक बार दुइडे पाक पढा अद्लाह उस पर दस रकभते भेजता है. (स्)

ગાલ કા કેન્સર

કુલૈલી (હૈદરઆબાદ, બાબુલ ઈસ્લામ પાકિસ્તાન) કે એક ઈસ્લામી ભાઈ કે બયાન કા ખુલાસા હૈ : ગાલિબન 1992 સિ.ઈ. કી ખાત હૈ કે હમારે એક જવાં સાલ અઝીઝ મેનપૂડી ખાને કે ઈસ કદર આદી થે કે મેનપૂડી મુંહ મેં રખ કર સો ભી જાતે થે ઈખ્તિદાઅન ઉન કે ઉલટે ગાલ કી તરફ ઘાલા પડા જો બઢતે બઢતે કેન્સર કી સૂરત ઈખ્તિયાર કર ગયા. ઈલાજ કરવાયા મગર મરઝ બઢતા રહા ઔર ચન્દ હી માહ મેં રુખ્સાર (યા'ની ગાલ) કે આરપાર સૂરાખ હો ગયા ઔર આહિસ્તા આહિસ્તા ગાલ કા ગોશ્ત ગલ કર ઈસ તરહ ઝડને લગા જૈસે જલા હુવા કાગઝ ઝડતા હૈ કુછ હી અર્સે મેં ગાલ કા તકરીબન હિસ્સા ગલ કર ઝડ ગયા. જિસ કી વજહ સે પૂરા જબડા નઝર આતા ઔર જો ભી ચીઝ ખાને યા પીને કી કોશિશ કરતે વોહ બાહર નિકલ આતી, વોહ અપને મુંહ પર કપડા ડાલે રહતે, બદબૂ કે બાઈસ ખુશબૂ વગૈરા લગાતે. હાલત જબ બહુત બિગડી તો ઉન્હેં ઈલાજ કે લિયે જૈસે તૈસે મર્કઝુલ ઔલિયા લાહોર લે જાયા ગયા મગર ડોક્ટરોં ને યેહ કહ કર લૌટા દિયા કે અબ ઈન કા બચના બહુત મુશ્કિલ હૈ, શાયદ યેહ ચન્દ દિનોં કે મેહમાન હેં. જબ વાપસી કે લિયે બસ મેં બૈઠે તો દીગર મુસાફિરોં ને બદબૂ કે ભપકોં ઔર મરઝ કી નૌઈયત દેખ કર એહતિજાજ શુરૂઅ કર દિયા કે હમ ઐસે મરીઝ કે સાથ સફર નહીં કર સકતે. બિલ આખિર ઉન્હેં બ ઝરીઅએ ટ્રેન રાસ્તે મેં ખુશબૂ કા સ્પ્રે કરતે હુએ લાયા ગયા. ઘર આને કે બા'દ કુછ હી દિનોં મેં ઉન કા ઈન્તિકાલ હો ગયા. અદલાહ عَزَّوَجَلَّ હમારી, મહૂમ ઈસ્લામી ભાઈ કી ઔર ઉમ્મતે મહબૂબ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم કી મગ્ફિરત ફરમાએ.

امین بجاہ النبی الامین صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

ફરમાને મુસ્તફા ﷺ : عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ : જો શપ્સ મુઝ પર દુરુદે પાક પઢના ભૂલ ગયા વોહ જન્નત કા રાસ્તા ભૂલ ગયા. (ખુરૂફ)

મેનપૂડી ખાને વાલે કી હિકાયત

પાન કે સાથ તમ્બાકૂ કા ઈસ્તિ'માલ નુક્સાનાત મેં મઝીદ ઈઝાફા કરતા હૈ, ઈસી તરહ ખુશ્બૂદાર સોંફ સુપારી ભી મુઝિરેં સિહ્હત હૈ ઓર મેનપૂડી તો ઈસ કદર ખતરનાક હૈ કે ઈસ કી તરફ દેખના ભી નહીં ચાહિયે. એક ઈસ્લામી ભાઈ ને બતાયા કે મેં ને લિયાકતઆબાદ (બાબુલ મદીના પાકિસ્તાન) કે એક નૌ જવાન કો દેખા હૈ જો મેનપૂડી ખાને કા આદી થા. બેચારે કો ગલે કા કેન્સર હો ગયા હૈ, ગિઝા ઉતરની બન્દ હો ગઈ થી તો ડોક્ટરોં ને ગલે કી તરફ સૂરાખ કર કે ગિઝા પહોંચાને કે લિયે નાલી લગા દી હૈ.

પાન કા ને'મલ બદલ

પાન વગૈરા કા ને'મલ બદલ (Alternative) યૂં કર લીજિયે કે અગર ગારન્ટી શુદા અસ્લી કથ્થા મિલ જાએ ફિહિહા (યા'ની બેહતર) વરના સુલૈમાની પાન યા'ની બિગૈર કથ્થે યૂને કે, પાન કે સબ્જ પત્તે પર બે ખુશ્બૂ ફક્ત સાદા છાલિયા કે ત્રીન ટુકડે રખ કર ખા લીજિયે. મગર યેહ ભી કભી કભાર ખાઈયે ઈસ કી આદત મત બનાઈયે ઈક્કા દુક્કા બાઝારી પાન ખાને મેં યેહ ભી ખતરા રહતા હૈ કે અગર ચસ્કા લગ ગયા તો બાર બાર ખાને કો જી ચાહેગા ઓર યૂં આદત પડ સક્તી હૈ, લિહાઝા ઈસ કી જગહ બિગૈર ખુશ્બૂ લગી ઈલાયચી યા બિગૈર ખુશ્બૂ કા સોંફ ધનિયા ભી ઈસ્તિ'માલ કિયા જા સક્તા હૈ. છોટી છોટી મીઠી ગોલિયાં હરગિઝ ન ખાએં કે મેરી નાકિસ મા'લૂમાત કે મુતાબિક ઈસ પર ખાને કા રંગ (Food colour) નહીં ચઢતા ઈસ લિયે કપડે રંગને કા રંગ ચઢાતે હેં. ઝિયાદા પાન ખાને વાલે કે હોંટ ઓર દાંત વગૈરા ગહરે લાલ ઓર બદનુમા હો જાતે હેં.

करमाने मुस्तफ़ा: حَسْبِيَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ: जिस के पास मेरा जिक्र हुआ और उस ने मुझ पर दुर्दद पाक न पढा तलक़ीक़ा
 वोह बढ भप्त हो गया. (उर्ज़ा)

पान का उर्ज़वी नुक्सान

मीठे मीठे ईस्लामी भाईयो ! अगर सवाब दिलाने वाली अख़री अख़री निख्यतें न हों तो बाज़ारी पान पाने में आभिरत के मुआ-मले में भी नुक्सान ही नज़र आ रहा है के ज़िन्दगी के अनमोल लम्हात पान छालिया यवाने की नज़र हो जाते हैं, इस दौरान ईन्सान जिको दुर्दद से दूर और तिलावत से मा'ज़ूर रहता है. बार बार पीक थूक कर दूसरों के लिये घिन का भाईस बनता है, किसी के कपडे, गाड़ी या दीवार वगैरा पर पीक डाल दी तो बन्दों की हक त-लफ़ी के मुआ-मलात का सामना होता है. और वुज़ू के मुआ-मले में भी पान पाने वाले के लिये सप्त आज़माईश का सामना है. युनान्चे

पान पाने वाले मु-तवज्जुह हों

मेरे आका आ'ला हज़रत, ईमामे अहले सुन्नत, वलिय्ये ने'मत, अज़ीमुल अ-र-क़त, अज़ीमुल मर्तबत, परवानअे शम्मे रिसालत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, डामिये सुन्नत, माहिये बिद्अत, आलिमे शरीअत, पीरे तरीक़त, भाईसे भैरो अ-र-क़त, हज़रते अल्लामा मौलाना अलहाज अल ड़ाहिज़ अल कारी शाह ईमाम अहमद रज़ा पान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن इतावा र-उविय्या ज़िल्द अव्वल सफ़हा 624 ता 625 पर इरमाते हैं : पानों के कसरत से आदी ખुसूसन ज़ब के दांतों में इज़ा (गेप) हो तज़रिबे से जानते हैं छालिया के भारीक रेजे और पान के बहुत छोटे छोटे टुकडे इस तरह मुंह के अतराफ़ी अक़नाइ में ज़ गीर होते हैं (या'नी मुंह के कोनों और दांतों के भांयों में घुस जाते हैं) के तीन बल्के क़बी दस बारह कुद्लियां भी उन के तस्फ़ियअे ताम (या'नी मुकम्मल सफ़ाई) को काफ़ी नहीं होतीं, न ख़िलाव उन्हें निकाल सकता है न मिस्वाक, सिवा कुद्लियों के, के पानी मनाइज़ (या'नी सूराषों) में दाख़िल होता और ज़ुम्बिशें देने (या'नी

﴿فَرْمَانَهُ مُسْتَفْهِمًا﴾ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस ने मुँज पर दस भरतभा सुब्द और दस भरतभा शाम दुर्रदे पाक पढा।
(उसे कियामत के दिन मेरी शक़ाअत मिलेगी.) (अ. १/११)

खिलाने) से जभे हुअे बारीक ज़र्री को ब तदरीज छुडा छुडा कर लाता है, इस की ली कोई तहदीद (हद बन्दी) नहीं हो सकती और येह कामिल तस्फ़िया (या'नी मुकम्मल सफ़ाई) ली बहूत मुअक्कद (या'नी इस की सप्त ताकीद) है मु-तअदद अहादीस में एशाद हुवा है के जब बन्दा नमाज़ को पडा होता है फिरिश्ता उस के मुँह पर अपना मुँह रभता है येह जो पढता है इस के मुँह से निकल कर फिरिश्ते के मुँह में जाता है उस वक्त अगर जाने की कोई शै उस के दांतों में छोती है मलाअेका को उस से औसी सप्त एजा छोती है के और शै से नहीं छोती. (युनान्थे)

फ़िरिश्तों को एजा छोती है

हुज़ूरे अकरम, नूरे मुजस्सम, शाहे बनी आदम, रसूले मुह्तशम صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया : जब तुम में से कोई रात को नमाज़ के लिये पडा हो तो याहिये के भिस्वाक कर ले क्यूंके जब वोह अपनी नमाज़ में किराअत करता है तो फिरिश्ता अपना मुँह इस के मुँह पर रभ लेता है और जो यीज़ इस के मुँह से निकलती है वोह फिरिश्ते के मुँह में दाखिल हो जाती है. (شُعَبُ الْإِيمَانِ ج ٢ ص ٣٨١ رقم ٢١١٧) और त-बरानी ने कबीर में हज़रते सय्यिदुना अबू अय्यूब अन्सारी से रिवायत की है के दोनों फिरिश्तों पर इस से ज़ियादा कोई यीज़ गिरां (या'नी तकलीफ़ देह) नहीं के वोह अपने साथी को नमाज़ पढता देषें और उस के दांतों में जाने के रेजे इंसे हों.

(الْمُعْجَمُ الْكَبِيرُ لِلطَّبْرَانِيِّ ج ٤ ص ١٧٧ حديث ٤٠٦١)

ईफ़तार में ओहतियात

भीठे भीठे ईस्लामी ल्माँयों ! बिल ખુसूस र-मजानुल मुबारक में इस बात का ज़ियादा ખयाल रभना याहिये. मस्जिद में ओकआध ખજूर से ईफ़तार कर के मुँह में इस तरह खिला जुला कर पानी पिये के मुँह में भिठास और कोई ज़र्री बाकी न रहे अगर इल या पकोडे समोसे

करमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: जो मुज़ पर अेक दुरेद शरीक़ पढता है अल्लाह عَزَّ وَجَلَّ उस के लिये अेक कीरात अज्र लिखता है और कीरात उलुद पढाड जितना है. (मिर्ज़ा)

वगैरा भी भाअे तो मुंड और दंत अथ्छी तरल साइ करने डोंगे दौराने नमाज कोई ज़र्रा या रेशा दंतों में इंसा हुवा नही रहना याखिये. अगर मुंड साइ करना दुश्वार डो या नमाजे मगरिब की जमाअत की कोई रकअत झौत डोती डो तो आसानी ईसी में है के सिर्फ़ पानी से ईंझतार कर ले के पानी से ईंझतार करना भी सुन्नत है. युनान्हे डरते सख्खिदुना अनस बिन मालिक رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ इरमाते हैं : में ने अल्लाह عَزَّ وَجَلَّ के मडबूभ, दानाअे गुयूभ, मुनज़्जुन अनिल डयूभ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ को कभी ईस तरल नही देभा के आप صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ ने ईंझतार से पडले नमाजे मगरिब अदा इरमाई डो, याडे अेक घूंट पानी डी डोता. (आप صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ उस पानी से ईंझतार इरमाते)

(مُسْنَدُ أَبِي يَعْلَى ج ٣ ص ٣٢٤ حديث ٣٧٨)

तड्डीगे कुरआनो सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तडरीक, दार'वते ईस्लामी के म-दनी माडोल से डर दम वाबस्ता रहिये, डर माड कम अज कम तीन दिन के लिये म-दनी काइले में सकर करते रहिये और "इके मदीना" के जरीअे रोजाना म-दनी ईन्आमात का रिसाला पुर कर के डर म-दनी माड की ईब्तिदाई दस तारीषों के अन्दर अन्दर अपने जिम्मेदार को जम्अ करवाते रहिये إِنَّ شَاءَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ईन जराअेअ से डे शुमार सुन्नतें सीषने का मौकअ मिलता रहेगा.

या रड्ढे मुस्तफ़ा عَزَّ وَجَلَّ! जो मुसल्मान पान, गुटका, पुशबूदार छालिया, मेनपूडी, पान पराग, तम्बाकू और सिगरेट वगैरा की आदतों से जान छुडाना याडते हैं उन के लिये आसानियां अता इरमा और उन्हें ईन यीजों से नज्रात बपश, डमारी डे डिसाब मगिइरत इरमा. उम्मते मडबूभ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ को बपश दे.

أَمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

کرمبانه मुस्तक। صلى الله تعالى عليه و آله وسلم : जिस ने किताब में मुज पर दुइडे पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उस में रहेगा फिरिश्ते उस के लिये ईस्तिश्कार करते रहेंगे. (ا.م.م)

नोट : येह रिसाला पडली बार 11 शव्वालुल मुकर्रम 1427 सि.हि. (अ मुताबिक 4-11-2006) को तरतीब पाया और कई बार शाअेअ किया गया फिर 15 मुहर्मुल हुराम 1433 सि.हि. (अ मुताबिक 11-12-2011) में ईस पर नउरे सान्नी की.

तालिबे गमे मदीना व
अकीअ व मश्किरत व
बे हिसाब जन्नतुल
फिरदीस में आका
का पडोस



11 शव्वालुल मुकर्रम 1433 सि.हि.

4-11-2006

येह रिसाला पढ कर दूसरे को दे दीजिये

शादी गमी की तकरीबात, ईजतिमाआत, आ'रास और जुलूसे मीलाह वगैरा में मक-त-अतुल मदीना के शाअेअ कर्दा रसाईल और म-दनी इलों पर मुश्तमिल पेम्फ्लेट तक्सीम कर के सवाब कमाईये, गाहकों को अ निच्यते सवाब तोहफे में देने के लिये अपनी दुकानों पर भी रसाईल रअने का मा'मूल बनाईये, अम्बार इरोशों या अच्यों के जरीअे अपने मडल्ले के घर घर में भाडाना कम अउ कम अेक अहद सुन्नतों भरा रिसाला या म-दनी इलों का पेम्फ्लेट पछोंया कर नेकी की दा'वत की धूमें मयाईये और भूब सवाब कमाईये.

مآخذ ومراجع

مطبوعه	کتاب	مطبوعه	کتاب
دارالکتب العلمیة بیروت	شعب الایمان	داراحیاء التراث العربی بیروت	تفسیر کبیر
دارالکتب العلمیة بیروت	اسنن الکبری	دارالکتب العلمیة بیروت	صحیح بخاری
دارالکتب العلمیة بیروت	مسند ابویعلی	دارالابن تزم بیروت	صحیح مسلم
دارالمعرفت بیروت	رد المحتار	دارالفکر بیروت	سنن ترمذی
رضا فاؤنڈیشن مرکز الاولیاء لاہور	فتاوی رضویہ	دارالکتب العلمیة بیروت	سنن نسائی
مکتبۃ المدینہ باب المدینہ کراچی	بہار شریعت	داراحیاء التراث العربی بیروت	معجم کبیر

करमाने मुस्तकاً على الله تعالى عليه وسلم : जिस ने मुझे पर एक बार दुइडे पाक पढा अल्लाह عزوجل उस पर दस रदमते भेजता है. (مسلم)

इंडरिस

मजमून	पृष्ठ	मजमून	पृष्ठ
दुइडे शरीफ की इजीलत	1	पान गुटका और मुंड के गोशत का केन्सर	10
मुसलमान की तबाहती बालना करे सवाब	1	पान गुटका और मुंड का केन्सर	11
मसूदों के केन्सर के मरीज की हिकायत	2	मुंड के केन्सर की अलामात	12
आका ने परहेजी ईशाद इरमाई	2	पान गुटका और पेट का केन्सर	13
डॉक्टर के मन्अ करने का इन्तिज़ार मत कीजिये	3	केन्सर के 9 मरीज	13
पान क्या है ?	4	पान या गुटका और गले का केन्सर	14
पान के 15 इवाइद	4	पान, गुटका और गुदों की पथरी व केन्सर	15
कथ्या क्या है ?	5	भूराक नाक से बाहर आ जाती है	15
कथ्ये के 8 इवाइद	5	गुटका भोर की हिकायत	16
सूफी भांसी का इलाज	6	अेक डॉक्टर के तअस्सुरात	16
मुहईद मन्अन	6	कीयड आलूद दीवार की हिकायत	17
नकली कथ्ये की तबाहल कारियां	6	सिन्ध में गुटके की तबाहल कारियां	19
मिह्री भाना गोया पुदकुशी है	7	मेनपूडी के पांय शिकार	20
यूना क्या है ?	7	गाल का केन्सर	21
यूने के इवाइद	7	मेनपूडी भाने वाले की हिकायत	22
यूना भाने का शर-ई हुकम	8	पान का ने'मल बदल	22
यूने के नुकसानात	8	पान का उअरवी नुकसान	23
छालिया	8	पान भाने वाले मु-तवज्जेल हों	23
छालिया का मन्अन	9	इरिशतों को इजा छोती है	24
जभान का केन्सर	9	ईकतार में अेडतियात	24
मसूदों का केन्सर	10	मआभिजो मराजेअ	26
दांतों का कबल अज वक्त गिरना	10	इंडरिस	27
पान गुटका और होंटों का केन्सर	10	★ ★ ★	



اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَتَيْنَاكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَرْجُوْنَ بِشَرَارَةِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

सुन्नत की बहारें

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ कुरआनो सुन्नत की आलमगीर और सियासी तहरीक दा'वते ईस्लामी के महके महके म-दनी माहोल में अ कसरत सुन्नतों सीपी और सिपाई जाती हैं, हर जुमा'रात ईशा की नमाज के बाद आप के शहर में खोने वाले दा'वते ईस्लामी के लफ्तावार सुन्नतों तरे ईजतिमाअ में रिजाअे ईलाही के लिये अखरी अखरी निष्यतों के साथ सारी रात गुजारने की म-दनी ईजतिअ है. आशिकाने रसूल के म-दनी काफिलों में अ निष्यते सवाल सुन्नतों की तरबिष्यत के लिये सफर और रोजाना फिके मदीना के जरीअे म-दनी ईन्आमात का रिसाला पुर कर के हर म-दनी माह के ईम्निदाई दस दिन के अन्दर अन्दर अपने यहाँ के जिम्मेदार को जअ करवाने का मा'भूल बना लीजिये, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ इस की अ-र-कत से पाबन्दे सुन्नत बनने, गुनाहों से नकरत करने और ईमान की सिकाजत के लिये कुठने का जेहून बनेगा.

हर ईस्लामी भाई अपना येस जेहून बनाअे के "मुजे अपनी और सारी दुन्या के लोगों की ईस्लाम की कोशिश करनी है. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ" अपनी ईस्लाम की कोशिश के लिये "म-दनी ईन्आमात" पर अमल और सारी दुन्या के लोगों की ईस्लाम की कोशिश के लिये "म-दनी काफिलों" में सफर करना है. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

मड-त-अतुल मदीना की शापें

सूरत : वलियाभाई मस्जिद, प्वाज दाना दरगाह के पास.

जमनगर : पांच छाटडी

मोडासा : सुका अजर

गांधीधाम : सपना नगर, मदीना मस्जिद के पास

धोबका : ताजदारे मदीना मस्जिद के सामने, टावर बाजार

मड-त-अतुल मदीना[®] مکتبۃ الدینہ
दा'वते ईस्लामी

ईमाले मदीना, गी डोलिया अगीये के सामने, मिराजपुर, अहमदखाबाद, गुजरात, इन्डिया
Mo.091 93271 68200 E-mail : maktabaahmedabad@gmail.com www.dawateislami.net